### MUFIN GREEN FINANCE LIMITED

#### (FORMERLY KNOWN AS APM FINVEST LIMITED)

Corporate Office: 201, 2<sup>nd</sup> Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

Phone: (011) 42610483, Email: apmfinvestltd@gmail.com

CIN: L65990RJ2016PLC054921, Website: www.apmfinvest.com

Date 20th July, 2022

To, BSE Limited PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Ref: Scrip Code 542774

Sub: Newspaper clipping with respect to the Postal Ballot Notice of the Company

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper clippings of publication made in Newspapers viz. – The Indian Express (English-National Daily) and Sandhya Jyoti Darpan (Hindi Regional Daily) on Wednesday, July 20, 2022.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

Mayank Pratap Singh

For Mufin Green Finan

Company Secretary and Compliance Officer

IRCON INTERNATIONAL LIMITED (A Govt. of India Undertaking)
Website : www.ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

e-Procurement Notice (National Competitive Bidding) e-Tender No: IRCON/B-1200026/WPO-SER/BNDM/Re-e-Tender/PEB Date: 20.07.2022

e-Open Tender in two packet system for and on behalf of IRCON International Limited is invited from eligible bidders for following work: Name of work - "Design & Construction of Industrial Sheds with Pre-Engineered Steel Structures (PEB) excluding its civil works in connection with the Setting up of Detachment Free Rake Examination Facilities at Exchange Yard of Bondamunda, South Eastern Railway" having estimated cost (incla illaxes) of Rs. 1166.47 Lakh

End Date & Time of e-Bid submission: 03.08.2022 at 15:30 Hrs. For further details, visit website: https://etenders.gov.in/eprocure/app. Corrigendum, if any, would be hosted only on the website. General Manager /Civil, IRCON INTERNATIONAL LTD., 121/C, B, Ashok Nagar, Ranchi, Jharkhand - 834002

YES BANK LIMITED YES BANK Branch Office: Plot No. 0-19 A Third Plot, Ahinsha Circle, Ashok Marg, C-Scheme, Lajnur, Rajashtan - 300000 Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY Whereas The undersigned being the Authorized Officer of YES BANK Limited under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated **15-Nov-2019** by way of notice under section 13 (2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon **M/s. GNX FOOTWEAR** A Partnership Firm Through it's authorized Partner Mr. Subhash Singi, Resides At :- 120/ Saraogi Mansion, M. I. Road, Jaipur – 302001, Rajasthan As "the Borrower" And Geeta Devi Singhi, Resides At:- B-69/E, Yash Path Tilak Nagar, aipur – 302001, Rajasthan As "the Co-Borrower" Sudha Singi, Resides At 120/ Saraogi Mansion, M I Road, Jaipur – 302001, Rajasthan, Also At:- J-36 Krishna Marg, C-scheme Jaipur GPO, Jaipur – 302001, Rajasthan As "the Co-Borrower", Vimal Chandra Singi, Resides At :- Flat No -401 Sapphire Moon, D-263 Durga Marg Banipark, Jaipur – 302016, Rajasthan As The Co-Borrower & Mortgagor, Neha Singhi, Resides At :- J-36 Krishna Marg, C-Scheme Jaipur Jaipur GPO, Jaipur – 302001, Rajasthan as The Co-Borrower, Praveen Singhi Resides At :- 277 Kishanpole Bazar, Jaipur – 302003, Rajasthan, Also At:- T-1 Sapphire Heritage K-23 Malviya Marg, C-scheme, GPO, Jaipur – 302001, Rajasthan As "the Co-Borrower & Mortgagor", M/s. G N Sales Corporation A Partnership Firm Through It's Authorized Partner Mr. Subhash Singi, Resides At :- S-1 Ground Floor Jyoti Nagar Extension, Opp. Amroodon Ka Bagh, Jaipur – 302015, Rajasthan As "the Co-borrower", Subhash Singi, Resides At :- 120/

Saraogi Mansion, M I Road, Jaipur – 302001, Rajasthan, Also At:- J-36 Krishna

Marg, C-scheme, GPO Jaipur – 302001, Rajasthan As "the Co-Borrower" And Indexone Tradecon Private Limited Through It's Authorized Director Mr.

Vimal Chandra Singi, Resides At :- Ground Unit -1 , D-263, Sapphire Moon

Durga Marg Banipark, Jaipur - 302016, Rajasthan as "the Guarantor" to repay

the amount mentioned in the said notice being Rs. 5,21,71,638.91/- (Rupees

Five Crores Twenty One Lakhs Seventy One Thousand Six Hundred Thirty

Eight and Paise Ninety One Only) due as on 15th October, 2019 together with

further interest and other charges thereon, within 60 days from the date o

receint of the said notice

The Borrower and Guarantors having failed to repay the full amount, notice is nereby given to the Borrower, Mortgagor, Guarantors and the public in genera that the undersigned has taken possession of the property described hereir below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the 15th day of July of the year 2022 The Borrower, Mortgagor and Guarantors in particular and the public general is hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the charge of YES BANK Limited for balance outstanding amount of Rs. 5,21,71,638.91/- (Rupees Five Crores Twenty One Lakhs Seventy One Thousand Six Hundred Thirty Eight and Pais

Ninety One Only) and interest and costs thereon The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All the piece and parcel of the Plot No. B-69-A-1, Yash Path, Tilak Nagar, Mot Doongri Scheme, Jaipur, Rajasthan.

Date: 15 July 2022 For YES BANK Limite Place: Jaipur

(Authorized Officer MUFIN GREEN FINANCE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS APM FINVEST LIMITED) CIN: L65990RJ2016PLC054921

Registered Office: SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan-301019 Corporate Office: 201, 2nd Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 | Phone: (011) 42610483, Email: apmfinvestltd@gmail.com | Website: www.apmfinvest.com

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110

of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration), Rules, 2014 read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No.3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), and other applicable provisions, including any Statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as mentioned from time to time) a Postal Ballot Notice, seeking consent of the members on the resolutions as set out in the said Notice has been sent electronically to the members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants/Registrar & share transfer agent .e. Skyline Financial Services Private Limited, as on Monday, July 18, 2022 (Cut-Off Date) Resolutions are mentioned below:

Ordinary/Special resolution:

- . Approval for issuance of 35,54,502 Equity Shares on preferential basis;
- preferential basis to an entity belonging to promoter category;

The dispatch of the said notice through emails has been completed on July 19, 2022. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.apmfinyest.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of e-voting agency National Securities Depository Limited (NSDL), at

www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from the abovementioned websites. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off

Date i.e. Monday, July 18, 2022, may cast their vote electronically on the business items as set out in the notice of the postal ballot through electronic voting system (remote e-voting) of National Securities Depository Limited (NSDL). The members are further informed that: a) The special businesses as set out in the notice of the postal ballot are to be transacted

- through voting by electronic means only. b) The remote e-voting begins at 09:00 a.m. (IST) on Wednesday, July 20, 2022.
- c) The remote e-voting ends at 05:00 p.m. (IST) on Thursday, August 18, 2022.
- d) The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday
- e) The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting and the voting by electronic means shall not be allowed after the date and time mentioned under point 'c' above; and (ii) once the vote on a resolution is cast by a
- member, the member shall not be allowed to change it subsequently; The manner of remote e-voting for members holding shares in physical mode of dematerialized mode or who have not registered their email addresses with the Company / Depository Participant, is provided in the notice of the postal ballot and

available on the Company's website at www.apmfinvest.com. ) Manner of registering/updating email address:

- For members holding shares in Physical mode and whose e-mail addresses are not registered/ updated are requested to register/ update their E-mail ID by contacting their respective Depository Participant or by email to M/s Skyline Financial Services Private Limited (RTA) at: admin@skylinerta.com
- Members, holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email ids with their respective Depository Participants.
- In case of any guery and/or grievance in respect of voting by electronic means, Members may refer to Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under Help section or may contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager (NSDL), National Securities Depository Ltd.

For MUFIN GREEN FINANCE LIMITED Mayank Pratap Singh

Place: Alwar जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर <sup>हमांक:</sup> जविप्रा/अधि.अभि. (सार्वजनिक विज्ञपित) 16/07/20 (हिंगि-)) (2022)के 268 (सामगणि प्रधान ) (हा/ए/आ सर्वमाशायण के पृत्ति किया जाता है कि कप्यूप दिका प्राविकरण क्षेत्र में मेंससे (पटीसी टैनीकाम टॉवर कांप्रोचेर जान आ ति. द्वारा जीबीएम टॉवर लगाने की स्वीजृति चाही गई है अगर किसी व्यक्ति / संस्था / कांलोनीवासियों को को आपति हो तो प्रमाण दित्त सार्विव अस्पूर्प विकास प्राविकर के कायांल्य में 07 दिवस में आपति प्रस्तुत कर अच्छा उर कम्पनी को टॉवर लगाने की स्वीकृति जाँसे कर अच्छा उर कम्पनी को टॉवर लगाने की स्वीकृति जाँसे कर ये जायेगी प्राविकरण की वस्त्राईट www.jda.urban.rajasthar gov.in पर देखा जा सकता है-

Date: 19.07.2022

zone John Latitude Zone JA Latitude Zone JA Latitude Zone JA Latitude Zone JA Latitude Latitu

धिशाषी अभियन्ता (RRP-II), नोडल अधिकारी-ओएफसी, जविप्रा, जयप्

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



POONAWALLA FINCORP LIMITED

(FORMERLY, MAGMA FINCORP LIMITED) REGD. OFFICE: 601, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE - 411036

**DEMAND NOTICE** UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned Borrowers/Co-borrowers/Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility(ies) by mortgaging your Immovable property/ies from Magma Fincorp Ltd. "MFL" now renamed as Poonawalla Fincorp Ltd. "PFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002 as and by way of Alternate Service upon you.

Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed there under are given as under

	_			
L. o.	Name of the Borrower, Co-Borrower, Guarantor and Loan Amount	Details of the Secured Asset	Demand Notice Date	Amount Due in Rs.
1	SITA DEVI (LEGAL HEIR OF SHRAWAN	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF	13.06.2022	Rs. 20,96,391/-
	KUMAR), MANISH KUMAR, SITA DEVI,	MORTGAGED PROPERTY SITUATED		(Rupees Twenty
	JYOTI PRAJAPAT (LEGAL HEIR OF SHRAWAN	AT PATTA NO. 83, MISAL NO.		Lacs Ninety Six
	KUMAR), KAMAL KISHOR (LEGAL HEIR OF	206/2006-2007, TEHSIL RAIPUR AND		Thousand Three
	SHRAWAN KUMAR), MANISH KUMAR (LEGAL	DIST. PALI AND BOUNDARIES OF		Hundred Ninety
	HEIR OF SHRAWAN KUMAR)	THE NORTH: PLOT NO. 65 SOUTH:		One Only) together
	Loan Amount : Rs. 2159000/-	PLOT NO. 77 EAST : ROAD 20 FEET,		with further interest
	Louis Amount : 113. 213 3000/	WEST: PLOT NO.67 AREA :186.77		@ 15.05 % p.a till
	Loan No : HL/0052/H/14/000003	SQ.YARD		repayment.
ı th	e Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are	therefore called upon to make payment of	the above mention	oned demanded amount

oun with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act. You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consen

Dated: 20.07.2022

For Poonawalla Fincorp Limited (Formerly Known as Magma Fincorp Ltd.)



SL

No

01

### **ORIX Leasing & Financial Services India Limited**

(formerly known as OAIS Auto Financial Services Limited) (A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited Regd. Office: Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059 Tel.: + 91 22 2859 5093 / 6707 0100 | Fax: +91 22 2852 8549

Email: info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

#### (Notice under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from ORIX Leasing & Financial Services India Limited. The loans of the below mentioned borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI Guidelines. Amounts due by them to ORIX Leasing & Financial Services India Limited, are mentioned as per the respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates

I	Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers	Outstanding as per 13(2) Notice	Notice Date	Details of Secured asset
I	1	LN0000000012221		1. Jagdish	INR	,	All That Piece And Parcel Of Plot No. 134
ı			Secured Loan	Prasad Yadav 2. Mangal	6179406.95	2022	Admeasuring 2906.28 Sq. Ft., Dairy Farm Scheme Ramlyawala, Opp. Suncity, Sikar Road, Jaipul
l			Loan	Chand Yadav			Rajasthan, And Bounded As: North: Plot No. 135
I				3. Nanchhi Devi			East: Road 9.0 Mtr., West: Road 12.0 Mtrl, South
ı				4. Yadav Dairy			Plot No. 133
ı				Farm			

You are hereby called upon to pay the amounts due to ORIX Leasing & Financial Services India Limited as per details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date o this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec. 14 of the SARFAESI Act against the mortgage properties mentioned herein above to realize the amount due to ORIX Leasing & Financial Services India Limited urther you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale / lease or otherwise

Date : 20.07.2022 Place: JAIPUR

Authorised office **ORIX Leasing & Financial Services India Limited** 

■■Fullerton ■■ Grihashakti

### **FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED**

Corporate Off.: Flr. 5 & 6, B-Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Powai, Mumbai - 400 076
Regd. Off.: Megh Towers, Flr. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai - 600 095

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-AUCTION SALE NOTICE OF 30 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION

OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. Notice is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below listed immovabl

properties ("Secured Assets") mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the **Authorised** Officer of Fullerton India Home Finance Company Limited ("Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", "As is what is and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and furthe terest and other expenses thereon till date of realization, due to Fullerton India Home Finance Company Limited/Secured Credito from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below. The Reserve Price, Earnest Money Deposit (EMD) and Last Date of EMD leposit is also mentioned herein below

1) Date & Time of E-Auction: 22.08.2022 at 11.00 AM to 01.00 PM (with unlimited extensions of 5 minute each) 2) Last Date & Time of Submission of Request Letter of Participate/KYC Documents/Proof of EMD, etc.: 20.08.2022

SI.	Name of the Borrower(s)/	Demand Notice	Description of the
No.	Guarantor(s) LAN	Date & Amount	Properties
01	(1) OM PRAKESH, S/o BHANWAR LAL, (2) JAITUN, D/o DOULATRAM RAO Add. 1: R/o 141, MANI NAGAR, PALI, RAJASTHAN-306401	Rs. 16,74,507.89/- (Rupees Sixteen Lakh Seventy Four Thousand Five Hundred Seven	ALL PICEE AND PARCEL PROPERTY BEARING: Plot No. 355-A, 354-B & 355-B, CHAK NO. 2, KHASRA NO. 361/1, SHIVDEEP NAGAR, PALI, RAJASTHAN ADMEASURING 1200 SQ.FT. NORTH: ROAD, EAST: PLOT NO 354-A, SOUTH: PLOT NO 356, WEST: ROAD

Reserve Price : Rs. 13,15,000/-Earnest Money Deposit: Rs. 1,31,500 Bid Incremental Value: Rs. 13,150 (Rupees Thirteen Lakh Fifteen (Rupees One Lakh Thirty One Thousand (Rupees Thirteen Thousand One Thousand Only) Five Hundred only) Hundred Fifty only)

Details terms and conditions of the sale are as below and the details are also provided in our/secured creditor's website at the following link/website address (https://disposalhub.com and https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf). The Intending Bidders can also contact <mark>Mr. Ashok Manda, on his Mob. No. 9892294841, E-mail : ashokkumar.manda@grihashakti.com</mark>

Place: Rajasthan Date: 20.07.2022

Authorized Office **FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED** 

#### APRIGEOBAL CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED Registered & Corporate Office > 502, Tower A, Reninsula Business Pork, Senapoli Bapat Horg, Lower R Circle Office > Capit Global Capital Limited 2nd Roor .38 Pusa Road Rajendra Race, New Dehi-110005

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to CGCL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortoaged to COO, by the said Borrower(s) respectively.

S.N	Name of the Borrower(s)/	Demand Notice	Description of secured asset
	Guarantor(s)	Date and Amount	(immovable property)
1.	(Loen Account No. LINMEBKN000033757 Bikaner Branch) Anil Kuerar (Borrower) Jyoti, Laxmi Kant, Manju Devi (Co-Borrower)	11-07-2022 Rs. 22,12,989/-	All that Piece and Porcel of Leoschold Residential Property measuring 1612.50 So. Pt., situated at Nathusar Bass, Harijan Basti, Tehal and District Bikaner, Rajasthan - 334001 Bounded Asr., East By: Gall, West By: Property of Sh. Roop Chand, North By: Gell, South By: Property of Sh. Romeshwar
2	(Lean Account No. LNME108000040903	11-07-2022	All that Piece and Parcel of Plot No. 50, Area
	Johner Branch)	Rs-	admeasuring 100 Sq. Yds., J S Colony, Scheme of
	Mukesh M. (Borrover)	25,88,633/-	Jalmanal Housing Cooperative Society Limited Japas,

Reg. No. 2842/L, Road No. 17, V.K.J Ares, Sikar Road, Japus, Rajasthen - 302013, Bounded As: East By: Plot No. 50-A, Vest By: Plot No. 49, North By: 25-0" Wide Road, South By: Plot No. 60 Rama Devi. Suguram Guriar, Koshalva. Rohitash Gurjar (Co-Borrower) All that Piece and Parcel of Piot No. 17, Area admeristuring 201.49 Sq. Yds., Kamani Road, Near Dev Negat, Muripure, Belnad Road, Jajpur, Rajasthen - 302039, Bounded Ast, East By: Other's Land, West By: 100 Pt. Wide Road, North By: 30 Pt. Wide Road, South By: 30 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, North By: 30 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, North By: 30 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, North By: 30 Pt. Wide Road, South By: 100 Pt. Wide Road, So 3. (Loan Account No. LNMEJ08000057258 11-07-2022 Jobner Branch) 23,84,806/-Shankar Singh (Borrower) Svarup Kanwar, Sangram Singh

If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured asset under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said borrowers as to the costs and consequences. The said borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid exists, whether by way of sale, leaseer otherwise without the prior written consent of CGCL. May person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Actor Rules made the reunder, shallbe liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Place :- RAJASTHAN Date :- 20.07.2022 5d/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited

Company Secretary **AU SMALL FINANCE BANK LIMITED** 

(A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and

Name of Borrower/Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor / Loan A/c No.	13(2) Notice Date & Amount	Description of Mortgaged Property	Date of Possession Taken
(A/c No.) L9001060116919440 RIYAZUDDIN (Borrower & Mortgagor), ZAKIR HUSSAIN (Co-Borrower)	15-May-21 Rs. 673860/- RS. SIX LAC SEVENTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY ONLY as on 15-May-21	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/Structure and fixtures SHOP NO. 202, SECOND FLOOR JANKADEEP COMPLEX VALLABHARI LINK ROAD, GUMANPURA DTSTT-KOTA, RAJASTHAN ADMEASURING 209 SQ. FT. East: SHOP NO. 203, West: SHOP NO. 201, North: SHOP NO. 223, South: BALKANI ROAD	15-Jul-22
(A/c No.) L9001060119090394 M/S ROOPANTARAN INTERIORS THROUGH ITS PROPRIETOR- RIVA ZUDDIN , RIYA ZUDDIN (Co-Borrower & Mortgagor), ZAKIR HUSSAIN (Co- Borrower)	15-May-21 RS. 732126/- RS. SEVEN LAC THIRTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY SIX ONLY as on 15-May-21	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/Structure and fixtures SHOP NO 201, 2ND FLOOR JANAKDEEP COMPLEX KOTARI ROAD GUMANPURA DIST-KOTA RAJ. Admeasuring 209 SQ. FT East:SHOP NO 202, West:OTHER HOUSE, North:SHOP NO 224, South:BALCONEY AND COMAN PASSAGE	15-Jul-22

secured assets." The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table. Date: 19-July-2022 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited



No.

#### DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (WATER) PROJECT-II **EXECUTIVE ENGINEER (EAP)-II**

A- BUILDING, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 E-mail:- eeeap2.djb@gmail.com



**ICICI Bank Limited** 

N.I.T. No. 02 (2022-23) (Re-invite) Last date / time of Amount put to tender Money Fee of tender submission of tender Reconstruction of Garage and Servant Quarters in Bungalow No. E-1 and E-2 at Rs. 500/-(non-Rs. 26,70,362/-Rs 19.07.2022 02 08 2022 53,500/up to 03.00 PM Chandrawal Water Works. (Re-invite) Tender ID No. 2022 DJB 226366 1

e: Any further amendment/corrigendum made in this NIT http://govtprocurement.delhi.gov.in. Sd/- (Parveen Kumar Gupta) ISSUED BY P.R.O. (WATER) E.E. (EAP)-II Advt. No. J.S.V. 247 (2022-23 STOP CORONA (i) Wash Your Hands, (ii) Wear Mask, (iii) Maintain Social Distance

FICICI Bank PUBLIC NOTICE - TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

**Branch Office:** ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building. Malviya Nagar JLN Marg- Jaipur 302017

[See proviso to rule 8(6)]
Notice for sale of immovable assets

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Ltd. will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", as per the brief particulars given hereunder;

Sr.	Borrower(s)/	Details of the Secured asset(s)	Amount Outstanding	Reserve Price	Date and Time of	Date & Time of
	Co-Borrowers/ Guarantors/ Loan Account No.	with known` encumbrances, if any		Earnest Money Deposit	Property Inspection	Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Mrs. Meenakshi Sharma (Borrower) Vikash Sharma (Co- Borrower) Loan No: LBJAI00003315623/ LBJAI00003315614/ LBJAI00003340546	Plot No 222, Flat no. S- 01 Second Floor, Sri Balajee Residency Ganesh Nagar Awasiya Yojana, Niwaru Road Jhotwara, Jaipur 302012, Admeasuring an area of 1065 Sqft	Rs. 36,56,013/- as on 13-July- 2022	Rs. 23,30,000/- (Rupees Twenty Three Lacs and Thirty Thousand Only) Rs. 2,33,000/- (Rupees Two Lac Thirty Three Thousand Only)	August 17, 2022 from- 11:00 A.M. to 2:00 P.M	August 26, 2022 from- 12:00 P.M. onwards

The online auction will be conducted on website (URL Link-www.disposalhub.com) of our auction agency **W/S** NexXen Solution Private Limited. The Mortgagors/ noticee are given a last chance to pay the total dues with further interest till **August 25, 2022** before **05:00 P.M** else these secured assets will be sold as per above schedule. The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E)

at ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Nagar JLN Marg-Jaipur 302017. and there after they need to submit their offer through the above mentioned website onlyon or before **August 25, 2022** before 05:00 P.M along with scan image of Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. Kindly note, incase prospective bidder(s) are unable to submit their offer through the website then signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd. Regional Office JSEL Building, Malviya Nagar JLN Marg-Jaipur 302017 on or before August 25, 2022 before 05:00 P.M. Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/Scheduled Bank in favour of "ICICI Bank Limited" payable at Jaipur
For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the auction or submission of

tenders, kindly contact ICICI Bank Limited on 8584874809, 9462826024 or M/s NexXen Solutions Private Limited on 9810029926/01244233933 Please note that Marketing agencies1. NexXen Solution Private limited 2. Augeo Asset Management Pvt Ltd

have also been engaged for facilitating the sale of this property.
The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.
For detailed terms and conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date: July 20, 2022 **Authorized Officer** 



Place: Jaipur

### AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/ Mortgagers/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days. the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the mortgage properties/Secured assets as given below, Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor. Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before

Name of the Borrower/ Co-Borrower	Date and Amount of Demand	Description of		
/Mortgagor/Guarantor/ Loan A/c No.	Notice Under Sec. 13(2)	Mortgaged Property		
(A/c No.) L9001060101675711 & L9001061124319477 Pavan Kumar Suthar (Borrower), Nrmala Devi (Co-Borrower), Manohar Lal Suthar (Co-Borrower), S Hankar Lal (Co-Borrower) Guarantor: Shanti Lal Suthar	13-Jun-22 Rs. 888097/- Rs. Eight Lac Eighty-Eight Thousand Ninety-Seven Only & Rs. 171461/- Rs. One Lac Seventy-One Thousand Four Hundred Sixty- One Only <b>As on 10-Jun-22</b>	Property Situated At 147 , Suthar Mohalla Dagar Th.Salumber Udaipur Rajasthan Admeasuring 2152 Sq Yd		
(A/c No.) L9001060113336507 & 1.9001061018266128 Durgesh Singh Bhati (Borrower), Bhupendra Singh Bhati (Co-Borrower), Hemant Kunwar Bhati (Co-Borrower) Guarantor: Manish Singh Rathore	13-Jun-22 Rs. 1764982/- Rs. Seventeen Lac Sixty-Four Thousand Nine Hundred Eighty- Two Only & Rs. 237724/- Rs. Two Lac Thirty-Seven Thousand Seven Hundred Twenty-Four Only As on 10-Jun-22	Property Situated At Gram Panchayat 12 Pardi Amet Baniya Ka Khera Rajsamand Rajasthan <b>Admeasuring 2165 Sqf</b> t		
(A/c No.) L9001060114032931 Shyam Lal Lohar (Borrower), Sharda Bai Lohar (Co-Borrower), Manish Kumar Lohar (Co-Borrower), Banshi Lal Lohar (Co-Borrower), Tulsi Ram Sharma (Co- Borrower)	13-Jun-22 Rs. 328311/- Rs. Three Lac Twenty-Eight Thousand Three Hundred Eleven Only <b>As on 10-Jun-22</b>	Property Situated At Gram Panchayat 85 Semarda Chittorgarh Rajasthan <b>Admeasuring</b> <b>288 Sqft</b>		
(A/c No.) L9001060101085451 Vinod Bhoi (Borrower), Sushila Bai (Co- Borrower) Guarantor : Madan Lal	13-Jun-22 Rs. 192742/- Rs. One Lac Ninety-Two Thousand Seven Hundred Forty- Two Only <b>As on 10-Jun-22</b>	Property Situated At Village,Amet Th,Amet Dis,Rajsamansd Rajasthan Admeasuring 640 Sq Yd		
(A/c No.) L9001060114533616 Laxmi Lal Gayari (Borrower)	13-Jun-22 Rs. 292630/- Rs. Two Lac Ninety-Two Thousand Six Hundred Thirty Only <b>As on 10-Jun-22</b>	Property Situated At Gram Panchayat Khamnor Nathdwara Rajsamand Rajasthan Admeasuring 173.57 Sqft		
(A/c No.) L9001060817380228 Laxmi Lal Gayari (Borrower), Shreeji Meenakari (Co-Borrower)	13-Jun-22 Rs. 347088/- Rs. Three Lac Forty-Seven Thousand Eighty-Eight Only <b>As on</b> 10-Jun-22	Property Situated At Gram Panchayat Sema Khamnore Rajsamand Rajasthan <b>Admeasuring</b> <b>173.57 Sqyds</b>		
(A/c No.) L9001061124518260 Laxmi Lal Gayari (Borrower), Shreeji Meenakari (Co-Borrower)	13-Jun-22 Rs. 128956/- Rs. One Lac Twenty-Eight Thousand Nine Hundred Fifty-Six Only <b>As on 10-Jun-22</b>	Property Situated Atkheri Molela Rajsamnad Rajasthan 313322- <b>Admeasuring 173.57 Sqft</b>		
(A/c No.) L9001060120099773 M/S Dev Kripra Nasta Cen Through Its Proprietor Sawai Singh, Smt Sayar Kanwar (Co-Borrower), Sawai Singh (Co- Borrower), Nahar Singh (Co-Borrower)	13-Jun-22 Rs. 313155/- Rs. Three Lac Thirteen Thousand One Hundred Fifty-Five Only <b>As</b> <b>on 10-Jun-22</b>	Property situated at HOUSE PATTA NO 35 ,GAJSINGH JI KI BHAGAL, RAJSAMAND, RAJASTHAN <b>Ademasuring 53.22 SQ YARD</b>		
borrower, radial singli (co borrower)	on 10-Jun-22			

(A/c No.) L9001060120287031 Property Situated At Gram Panchavat Patta 5 Rs. 215266/-Rs. Two Lac Fifteen Thousand Fwo Hundred Sixty-Six Only **As on** Panata Ki Anti Devgarh Rajsamand Rajs Admeasuring 133.33 Sqyds Rebari Bhavji Kirana (Borrower), Narapat Singh (Co-Borrower), Shanti 10-Jun-22 (A/c No.) L9001060120308174 Rajveer Collection (Borrower), Sunil Kumar (Co-Borrower), Anil Kumar Property Situated At Gram Panchayat Ajeetgarh Bhim Rajsamand Rajasthan **Admeasuring 349 Sqyds** 13-Jun-22 Rs. 1377910/-Rs. Thirteen Lac Seventy-Seven Thousand Nine Hundred Ten Only aiswal (Co-Borrowei As on 10-Jun-22 (A/c No.) L9001061121213466 Rajveer Collection (Borrower), Sushila Jaiswal (Co-Borrower), Sunil Kumar (Co-Borrower), Anil Kumar Jaiswal (Co-Property Situated At Gram Panchayat Rajsamand Bhim Rajasthan **Admeasuring 349 Sqyds** 13-Jun-22 Rs. 230057/-Rs. Two Lac Thirty Thousand Fifty-Seven Only **As on 10-Jun-22** (A/c No.) L9001060120047720 Piyush Electric And Hardware (Borrower), Govind Ram Jethmal Prajapat (Co-Borrower), Jassa Prajapat (Co-Borrower) Property Situated At Gram Panchayat Hamato Ki Gawar Gram Panchayat Lakha Gudha Pan Samiti Bhim Rajsamand Rajasthan Admeasuring 150 Sqyds Rs. Five Lac Forty-Five Thousand Forty-One Only **As on 10-Jun-22** (A/c No.) L9001060723156257 Property Situated At Gram Panchayat 01 04 hree Sai Kirana Store (Borrower) Rs. 1326175/-Bodigama Banswara Rajasthan Admeasuring

(A/c No.) L9001060123555744 13-Jun-22 Property Situated At Gram Panchayat Patta No **Ùday Lal Sen (Borrower)** Guarantor : Ratan Lal Suthar Rs. 633129/-28 Sokdo Ka Kheda Gangrar Chittorgar Rs. Six Lac Thirty-Three Thousand One Hundred Twenty Nine Only **As on 10-Jun-22** Rajasthan Admeasuring 167.55 Sqyds (A/c No.) L9001060125292991 13-Jun-22 Property Situated At Gram Panchavat-**Dúle Singh Rajput (Borrower),** Kailash Kunwar (Co-Borrower), Shyam Kunwar Rs. 342264/-Mandpiya Kheda Kuraj Rajsamand Rajasthan Rs. 3422047-Rs. Three Lac Forty-Two Thousand Two Hundred Sixty Four Only **As on 10-Jun-22** Admeasuring 464 Sqyds

06-Jul-22

Rs. Thirteen Lac Twenty-Six Thousand One Hundred Seven

Five Only As on 10-Jun-22

Rs. 335795/-Rs. Three Lac Thirty-Five lousand Seven Hundred Nine Five Only **As on 06-Jul-22** Municipal Limit Girwa Udaipur Rajasthan
Admeasuring 1500 Sqft **Vinod Kumar Soni (Borrower),** Kamala Devi (Co-Borrower) (A/c No.) L9001060713008450 Property Situated At South Part Of Plot No. 52, Kali Magri, Sisrama, Distt. Udaipur, Rajasthan **Admeasuring 1500 Sqft** 06-Jul-22 **Vinod Kumar Soni (Borrower),** Smt. Hemlata (Co-Borrower), Kushna Kant Rs. 1090922/-Rs. Ten Lac Ninety Thousand Nine Hundred Twenty-Two Only As on 06-Jul-22 (Co-Borrower), Smt. Kamla Devi (Co-

(A/c No.) L9001060117601563 Hari Singh Ranawat (Borrower), Smt. Suraj Kunwar (Co-Borrower) 06-Jul-22 Rs. 737129/-Rs. Seven Lac Thirty-Seven Thousand One Hundred Twenty-Property Situated At Patta No. 4793 Situated At K.H No. 3361, Gram Panchayat Kheroda, Panchayat Samiti Bhinder, Vill. Kheroda Dist.Udaipur Rajasthan Admeasuring 902.71 Nine Only As on 06-Jul-22 Sq. Ft.

(A/c No.) L9001060116343896 Premeshwar Sen (Borrower), Bhavana Sen (Co-Borrower) Property Situated At Gram Panchayat 3564 1437 Kailwa Rajsamand Rajasthan Admeasuring 36 Sqyds 06-Jul-22 Rs. 177971/-Rs. One Lac Seventy-Seven Thousand Nine Hundred Seventy One Only As on 06-Jul-22 (A/c No.) L9001060117339851 Heera Lal Dangi (Borrower), Usha Dangi (Co-Borrower) Property Situated At Gram Panchayat Narayanpura Bhinder Udaipur Rajasthan **Admeasuring 125.66 Sqyds** 06-Jul-22 Rs. 912622/-Rs. Nine Lac Twelve Thousand Six

Hundred Twenty-Two Only As on 06-Jul-22

Place: Udaipur Date: 19-07-2022

Jaipur

Subhash Chandra (Co-Borrower), Sharda

Pandya (Co-Borrower)

(A/c No.) L9001060814687386

**Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited** 

58.88 Sqyds

Property Situated At Freehold - Within

# सावन का प्रथम सोमवार धूम धाम से मनाया



जयपुर। गुरु नानक कॉलोनी स्थित आज बाबा गुरुवेशवर नाथ में भगवान भोले नाथ का अलौकिक शृंगार, रोशनी से सजावट, भजन, प्रसादी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम संयोजक राजेश टहलानी ने बताया की कार्यक्रम में गुरुनानक कॉलोनी अध्यक्ष दौलत राम कलवानी. जागृति युवा संगठन के अध्यक्ष दौलत त्रिलोकानी, अंजना त्रिलोकानी, परुषोत्तम गलवानी.



अलवानी, कुमार सोनी, श्याम रागनी, कर्मचदानी, मेगराज गुरुमुख दास पमवानी, राम कलवानी, हरिश गेहनी, धर्मेंद्र पमवानी, भरत कोरवानी, दिलीप कोरवानी, मनोज रागनी, प्रकाश लाधनी, देवी दास गंगवानी, पंकज पंजाबी, मयूर लालवानी ,राज कलवानी, लोकेश वासदानी, लखन हिरानी, रमेश रामरखनी, सोनिया रामरखनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।

### विश्व शांति एवं विश्व कल्याणार्थ संगीतमय सुन्दरकाण्ड पाठ सम्पन्न

उदयपुर, 20 जुलाई। विश्वकल्याणार्थ विश्वशांति कामना को लेकर जय हनुमान राम चरित मानस प्रचार समिति के तत्वावधान में फतहसागर पर फतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में संगीतमय सुंदरकाण्ड का पाठ किया गया।

प्रारम्भ में विश्व कल्याण की कामना से पंचोउपचार स्थापित देवताओं की पूजा की गई। मंदिर के महंत गोपालाचार्य, सुशीला गौड़ द्वारा विधि विधान से पूजा की गई। संस्था के संस्थापक पंडित सत्यनारायण चौबीसा व उनकी टीम के द्वारा संगीतमय सुंदरकाण्ड पाठ का आयोजन प्रारम्भ किया गया।

'कब आओगे मेरे अंगना, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोवे वाट, हनुमान को खुश करना, सब आपकी कृपा से काम हो रहा है' आदि सुमधुर भजनों पर भक्त झुम उठे। पं. चौबीसा ने बताया कि सावन के पवित्र मास में भजन करने से शिव खुश रहते हैं।

इस शुभ अवसर पर समिति के संस्थापक पं सत्यनारायण चौबीसा, रामरघुवर सिंह, निर्मल जैन, संगीत टीम में चेतन, पुष्कर, पप्पू, विवेक, हितेष और अन्य दर्शनार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर विश्वशान्ति की कामना की गई। महाआरती कर महाप्रसाद का वितरण

# विद्यार्थी समाज एवं देश की अमूल्य पूंजी-निशांत सिंह

शेरपुर प्रधानाध्यापक ने अपनी धर्मपत्नी राधारानी शर्मा से अपने जन्मोत्सव पर 100 छात्राओं को प्रदान किए स्कूल बैग

धौलपुर, 20 जुलाई। राजकीय उच्च पूरा करना बेहद पुनीत कार्य है ।उन्होंने शेरपुर प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में स्कूल बैग वितरण समारोह का आयोजन नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि एवं पूर्व उपसभापति निशांत सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया।



संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बेटियों के प्रोत्साहन की सकारात्मक पहल करते हुए श्रावण मास के पवित्र मौके व अपने जन्मोत्सव पर अपनी धर्मपत्नी राधारानी शर्मा के सहयोग से100 छात्राओं को स्कूल बैग प्रदान किए। मुख्य अतिथि निशांत सिंह ने कहा कि विद्यार्थी समाज एवं देश की अमुल्य पूंजी हैं, इनकी जरूरतों को स्कुल की साज सज्जा भौतिक स्वरूप एवं लगातार नामांकन बढ़ोतरी की तारीफ करते हुए कहा कि शेरपुर विद्यालय किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आ रहा है।

इस दौरान प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि आमजन की सरकारी स्कूलों के प्रति बनी अवधारणा बदले इस लिये शेरपुर स्कुल को एक आदर्श सरकारी विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और संसाधन मिले, इसके लिए लगातार भामाशाहों के सहयोग के साथ स्वंय के वेतन से भौतिक संसाधन जुटाये जा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत बघेल ने भी विचार व्यक्त किए।

समारोह का संचालन अध्यापक सौरभ कुमार राजपूत ने किया। इस मौके पर साहब सिंह वकील, रामशंकर,

सत्येंद्र कुमार, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, राजेश कुमार शर्मा सहित बडी संख्या में छात्र छात्रा व अभिभावक मौजूद रहे।

## राज जागिड अभिनित राजस्थानी फिल्म 'बाबुल थारी लाड़ली' 22 को होगी प्रदर्शित

के प्रसिद्ध अभिनेता राज जांगिड के अभिनय से सजी 9 वंडर इंटरटेनमेंट के बैनर सामाजिक और पारिवारिक, संदेशप्रद व सरल राजस्थानी भाषा में बनी राजस्थानी फिल्म 'बाबुल थारी लाडली' 22 जुलाई को

बेटियों को बचाने और प्रोत्साहित करनें जैसे सामाजिक फिल्म 'ताण्डव' के मुख्य मुद्दों को लेकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त डायरेक्टर लेखक व निर्माता जुगल के. नायक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कई दर्जनों हिंदी व राजस्थानी फिल्मों एवं राज जांगिड ने इसमें मुख्य भूमिका

जयपुर, 20 जुलाई 2022। धारावाहिक में अभिनय कर चुकें बेटी पढाओं-बेटी बचाओं जैसी और अभी हाल ही की सुपरहिट

मार्मिक कहानी को लेकर राजस्थान फिल्म 'माँ' के मुख्य नायक और

माहेश्वरी, दीपमाला, रक्षा गृप्ता, अंजली पारीक, मोनू शर्मा, संतोष कँवर, बलवीर राठौड़ और युधिष्ठिर सिंह भाटी व नवोदित चेहरा धर्मेश नायक और मुस्कान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिल्म के सह निर्माता है जयश्री मित्तल, नरसी कुलरिया, संगीतकार मिलन हरीश

इस फिल्म के साथी कलाकार

है सोनम पाटनी, वंदना राणे, आर्यन

मनिष शर्मा, गीतकार बासित उमर व के नायक, छायांकन मन्नु जाला व राजेश नायक, फाईट मास्टर हेमगंज लिम्बु - राजा कुरैशी, नृत्य अश्विन कुमार व नरेश मनोज ठाकवानी के नेतृत्व में सैकड़ों पीधे बांटे



जयपुर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श नगर विधायक रफ़ीक़ खान के सानिध्य से और पार्षद प्रत्याशी मनोज ठाकवानी के नेतृत्व में अशोक वाटिका, चित्रकूट

पार्क के पास सेक्टर 2 में पौधों को वितरित किया गया।

मनोज ठाकवानी ने कहा कि हरियाली व ऑक्सीजन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने

### मेले के दुकानदारों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

झूलने के लिए पैसे नहीं देना तथा

माता बहिनों से अश्लीलता करना

जिससे अन्य परिवार के लोग मेले

में नहीं आ पा रहे हैं। दुकानदारों ने

मांग की है कि मेले में पुलिस

व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जिससे

असामाजिक तत्त्वों से निजात सामान के पैसे न देना तथा झूला

दिलवाने के लिए मेले के दुकानदारों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर परिषद मेला ग्राउंड में उपखण्ड अधिकारी द्वारा मेले का परिमशन लेकर प्रार्थी ने एक निजी मेला लगाया है जिसकी अवधि 27 जून से 25 जुलाई 22 तक है। मेले में असामाजिक तत्वों द्वारा मेले में आये हुए दुकानदारों तथा मेले में आने वाले परिवारों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं।

दुकानदारों के साथ तथा उनके स्टाफ के साथ मारपीट करने पर

**धौलपुर, 20 जुलाई।** मेले में आमादा रहते हैं। सामान खरीदने पर मेला सही तरीके से चल सके। इस मौके पर मुन्ना, गुल्लू, अनवार,

आकाश, अजय शर्मा, हेमंत, शिवम जैन सहित काफी लोग मौजूद रहे। दुकानदारों ने बताया कि मेले को लेकर पुलिस का कोई सहयोग नहीं है जिस वजह से असामाजिक तत्व हावी हो गए हैं और मेले को नुकसान हो रहा है। मेले आयोजक ने बताया कि इस लोगों की वजह से करीब 7 से 8 लाख का नुकसान

हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि हम काफी दूर से दुकान लगाने आये हैं मगर यहां पर नुकसान हो रहा है। असामाजिक तत्वों ने मेले की हालत खराब कर दी है, अब कभी धौलपुर में मेला करने नहीं आएंगे।

# कर्मचारी संघर्ष के लिये तैयार रहे, आंदोलन का आगाज शीघ्र

राजस्थान राज्य कर्मचारी संयक्त महासंघ (एकीकृत) ने अपनी बकाया मांगो एसीपी 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 देने, वेतन विसंगतियाँ दूर करने, विभिन्न संवर्ग के मांगपञ अनुसार पदनाम व पदोन्नति के अवसर बढाने, वाहन चालक, सहायक कर्मचारियों के अवसर

संकल्प नीचे उल्लिखित हैं:

साधारण / विशेष संकल्पः-

कर्मचारियो का जनवरी 20 से जून 21 तक का रोका गया बकाया मंहगाई एरियर भुगतान करने, खेमराज कमेठी की रिपोर्ट प्रकाशित करने सहित विभिन्न मांगो को लेकर आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश संरक्षक ओमप्रकाश श्रीमाली के

खलनायक का जबरदस्त किरदार

निभाकर दोनों फिल्मों के लिए बैस्ट

नायक और खलनायक का अवार्ड

प्राप्त कर चूकें राजस्थान के अभिनेता

बैठक आयोजित हुई। बैठक में एक स्वर आंदोलन का निर्णय लिया गया।महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि आज इस अवसर पर महासंघ के नव निर्वाचित पदाधिकारीगणो एवं कार्यकारिणी सदस्यगणो का जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग,मख्य संरक्षक देवीलाल चौधरी संभाग प्रभारी दिनेश वैष्णव ने उपरणा मुफिन ग्रीन फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) CIN:L65990RJ2016PLC054921 ओढाकर स्वागत किया। बैठक को प्रदेश संरक्षक ओम प्रकाश श्रीमाली पंजीकृत कार्यालयः एसपी -147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी, राजस्थान-301019 कॉपरिट कार्यालयः २01, दूसरी मंजिल, सर्वश्रेष्ठ स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 फोनः (011) 42610483, ईमेल : apmfinvestltd@gmail.com जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग मुख्य संरक्षक देवीलाल चौधरी संभाग प्रभारी दिनेश वैष्णव शिक्षक संघ के सभा अध्यक्ष-

अधिनस्थ के जिलाध्यक्ष मुबारक हुसैन सलाहकार यशवंत पांडे वरिष्ठ सलाहकार रमेश मीणा कमल वीरवाल शिक्षक संघ एकीकृत के देवेंद्र शर्मा स्टेनोग्राफर के अध्यक्ष आश्तोष शर्मा गिरीश पुरोहित लैब टेक्नीशियन के मांगीलाल चौधरी हैंडपंप डीलिंग इनके राजेंद्र दशोरा बीमा विभाग के फकीरचंद अशोक नागदा महिला संयोजक दीपिका गोस्वामी सहसंयोजक गीता डामोर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रवीण चरपोटा अब्दुल करीम दीवान मांगीलाल चौधरी, वीरा लाल विभिन्न विभागों के जिलाध्यक्ष धूल सिंह चुंडावत वन रहने का आव्हान किया।

### अघोषित बिजली कटौती को लेकर खेडली फाटक केईडीएल के ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया

कोटा, 20 जुलाई। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड 11 में प्रतिदिन बिजली की दो से 3 घंटे घोषित कटौती की जा रही है पर उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है जिससे वहां की जनता बहुत अधिक त्रस्त हो चुकी है। जनता की परेशानियों को देखते हुए और निजी बिजली कंपनी की लापरवाही से परेशान होकर वार्ड 11 की पार्षद रचना शर्मा की अगुवाई में खेडली फाटक के बिजली कंपनी के ऑफिस पर कांग्रेस जनों और आम जनों द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया, सचिव और पार्षद साजिद खान लाला भाई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

### पुष्पराज सिंह शक्तावत मुख्य सलाहकार अध्यक्ष आदि ने संबोधित कर लोकेंद्र कोठारी वाहन चालक के कर्मचारियों को संघर्ष के लिये तैयार portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state:

ा डाउनलोड की जा सकती है। NIB No. : DLB2223A3161

### उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

निविदा सूचना

नोटीफिकेशन सं. म.रे.प्र./वा./आगरा/हाल्ट/08/2022 दिनांक 18.07.2022 भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिये वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उ.म.रे.—आगरा द्वारा निम्नलिखित हाल्ट स्टेशनों पर 05 वर्ष की अवधि के लिये एक हाल्ट एजेंट / कमीशन रजेंट की नियुक्ति हेर्तु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :--

क्र.म.	रेल खण्ड का नाम	हाल्ट स्टेशन का नाम	सर्विंग स्टेशन का नाम
1.	भांडई—ऊदीमोर	मानिकपुरा	फतेहाबाद
2.	भांडई–ऊदीमोर	धीमश्री	शमशाबाद
3.	भांडई—ऊदीमोर	भदरौली	फतेहाबाद
4.	धौलपुर—तातंपुर	बसेड़ी	मोहरी
5.	धौलपुर–सिरमथरा	आंगई	सिरमथरा
6.	धौलपुर—तातंपुर	गढीसान्द्रा	बारी
7.	धौलपुर—तातंपुर	बांगथर	तांतपुर
8.	मथुरा–पलवल	बनचारी	होडल

नियक्त किये जाने वाले एजेंटों की संख्या : एक. सिक्योरिटी राषि: 5000। आवेदनकर्ता द्वार प्रबंधक (वाणिज्य) उ.म. रेलवे, आगरा के कार्यालय से आवेदन फार्म की निर्धारित राशि रूपये 1,000, / — (रूपये एक हजार मात्र) मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, आगरा छावनी के कार्यालय में जम के पश्चात, नोटीफिकेशन प्रकाशन होने की दिनांक से (अवकाश के दिन को छोडकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.08.2022 समय 17.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है आवेदन फार्म अहस्तान्तर्णीय है। इस फार्म की कीमत वापिस नहीं की जायेगी। नोटीफिकेशन आवेदन फार्म तथा नियम एवं शर्ते उत्तर मध्य रेलवे की बैवसाईट nttp:www.ncr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। यदि आवेदन प्रपत्र बैबसाईट रे डाउन लोड किये जाते हैं तो आवेदन कर्ता द्वारा निविदा फार्म की निर्धारित कीमत रूपये डाउन लोड किये जात है तो आवर्षन कर्ता द्वारी ानावर्षित कोमता रूपये 1,000./ – किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैंडयूल बैंक के द्वारा जारी डी.डी./ बैंकर चैंक के रूप में, जो वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक उ.म.रे. आगरा (\$r.Divisional Finance Manager N.C. Railway- Agra) के पक्ष में देय हो, आवेदन फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त क्रर दिया जायेगा। आवेदन फार्म सील्ड बॉक्स के माध्यम से मंडल् रेल प्रबंधल (वाणिज्य) उ.म. रेलवे, आगरा के कार्यालय में दिनांक: 24.08.2022 को 15.00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें जो उसी दिन 15.30 बजे खोले जायेगें । यदि किसी कारणवश इस देन् अवकाश होता है तो आवेदन् फार्म अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर स्वीकार व खोत नायेंगे। आवेदन फार्म खोलने के समय आवेदन कर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकत । उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ोस्तत विवरण आवेदन प्रपत्रों में उपलब्ध है । प्रत्येक स्टेशन के लिये अलग—अलग आवेदन फाम उपयोग किये जायेंगे। आमंत्रित आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रेल 850/22(AN) प्रशासन के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। tralrailways 🖪 North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 💆 @ CPRONCR

### कोटा में 18 जुलाई एवं गंगापुर सिटी में 19 जुलाई को आयोजित की गई प्रतियोगिता

कोटा, 20 जुलाई। 'आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन' सप्ताह के अंतर्गत 18 जुलाई को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें की आजाद हिंद फौज के नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सरदार अजीत सिंह जी के सपत्र मनवीर सिंह जी का आगमन हुआ। इस स्लोगन प्रतियोगिता में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को मनवीर सिंह जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसका निर्देशन सहायक कार्मिक अधिकारी रजनीश कुमार द्वारा किया गया तथा 19 जुलाई को गंगापुर सिटी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कतित्व पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी 7 जिसका संचालन गंगापुर सिटी रेलवे स्कूल प्रधानाचार्य ने किया इसमे 81 प्रतिभागी शामिल

### OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD MERTA CITY (NAGAUR)

NOTICE INVITING BID (time) 26.07.2022 (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement

NIB NO. DLB2223A3128 UBN.NO.DLB2223WSOB10832,33,35,36,37 38.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 AND 53 अधिशाषी अधिकारी

### कार्यालय नगरपालिका डेगाना (नागौर)

ई-निविदा सूचना संख्या 9/2022-23 नगरपालिका डेगाना द्वारा ई-निविदा सचना क्रमांक 243 दिनांक 11.07.2022 द्वारा 6(छ.) कार्यों हेत् निम्न यूबीएन क्रमांक से दिनांक 14.07.2022 से 25.07.2022 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित के जाती हैं। निविदा www.sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan gov.in पर देखी

UBN No.: DLB2223WSOB11100, DLB2223WSOB11102,

DLB2223WSOB11103, DLB2223WSOB11105, DLB2223WSOB11106,

DLB2223WSOB11107

अधिशाषी अधिकारी राज.संवाद/सी/5090/22-23 नगरपालिका डेगाना

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कदूमर, अलवर NIT No. 01/2022-23

Bids for Rate Contract for Routine Maintenance of various roads Work under Sub div Kathumar & Kherli Juridaction Div Kathumar, Alwar are invited from interested bidder upto 27.07.2022 06.00 PM. Other particulars of the bid be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in) of the state and http://pwd.rajasthan.gov.in departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 47.80 Lacs. UBN:- (1) PWD2223WSRC04099 (2) PWD2223WSRC04100

DIPR/C/9438/2022

(MANOJ SRIVASTAV) **Executive Engineer** PWD DN. Kathaumar Alwar

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड एन.सी.आर.पी.बी., अलवर

सा.नि.वि., परिसर, अशोका टाकीज के पास, कचहरी रोड, अलवर NIT No. 02/2022-23

Bids for Rate Contract for Various Roads Maintenance/Patch Repair Work under Sub div Bansur/Thanagazi Juridaction Div NCRPB Alwar are invited from interested bidder upto 23.07.2022 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procureportal (http://eproc.rajasthan.gov.in http://sppp.raj.nic.in) of the state and http://pwd.rajasthan.gov.in

departmental website. The approximate value of the procurement is **UBN:-** (1) PWD2223WSOB03822, (2) PWD2223WSOB03823 (Ramgopal Meena) Executive Engineer

### ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक दर्जन बच्चे घायल

धौलपुर, 20 जुलाई। मनिया-सखवारा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस दौरान उसमें सवार करीब 12 बच्चे घायल हो गए। वहीं घटना में घायल 4 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रमगढ़ा सरकारी स्कूल की छुट्टी होने पर नजदीकी गांव पिपरी पुरा जाने के लिए करीब 12 बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गए. तेज रफ्तार होने के कारण स्कूल से कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सखवारा पुलिस चौकी को दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को मनिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में आकाश पुत्र नरेश कुशवाहा, पूनम पुत्री सिकंदर, सोहन वीर पुत्र राजबहादुर और शुभम पुत्र ओमप्रकाश की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

### Office of The Executive Engineer, Water Resources Division II Dholpur No. EE/WR/DIV II Dholpur/NIT/2022-23/664

E-NIT No. 01/2022-23

Bids for Repair & Renovation Anicut Dulhara Village Dulhara Tehsil Mania (Dholpur) is invited from interested bidders Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in and www.dipr.rajasthan.gov.in & www.water.rajasthan.gov.in. UBN No.- WRD2223WSOB00887

(Vijay Kumar Sharma) **Executive Engineer** 

DIPR/C/9445/2022

Water Resources Division II Dholpur राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगढ, अलवर NIT No. 03/2022-23

Bids for Rate Contract for Various Roads

Maintenance/Patch Repair Work under Sub div Govindgarh and Ramgarh Juridaction Div Ramgarh Alwar are invited from interested bidder upto 25.07.2022 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in) of the state http://pwd.rajasthan.gov.in departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 72.75 Lacs. (2 Works)

(1) PWD2223WSRC04145

DIPR/C/9479/2022

(2) PWD2223WSRC04147

(PHOOL SINGH) **Executive Engineer** PWD Div Ramgarh Alwar

राजस्थान सरकार कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड किशनगढबास. अलवर Email: eelalwar2.pwd@rajasthan.gov.in & pwdalwar2@rediffmail.com

NIT No. 04/2022-23

Bids for Rate Contract for Routine maintance of Various roads in Sub division Kishangarh Bas, Kotkasim, Tijara and Bhiwadi Juridaction Div Kishangarh Bas (Alwar) are invited from interested bidder upto 25.07.2022 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in) of the state and http://pwd.rajasthan.gov.in departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 135.64 Lacs.

(1) PWD2223WSOB03954

(2) PWD2223WSOB03955

(3) PWD2223WSOB03956

(4) PWD2223WSOB03957

(Bhoori Singh) **Executive Engineer** 

तिथि : 19 जुलाई 2022

झ) ईमेल पते को पंजीकृत करने / अद्यतन करने का तरीका

मयंक प्रताप सिंह कंपनी सचिव

110 ("अधिनियम") के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पिठत नियम २०१४ ८ अप्रैल २०२० के सामान्य परिपत्र संख्या १४ / २०२० के साथ पितत सामान्य परिपत्र संख्य

सदस्यों की सहमति मांगने के लिए उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से भेजा गया है जिनके ई–मेल पते सोमवार, 18 जुलाई, 2022 (कट—ऑफ डेट) की स्थिति के अनुसार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस 🗸 रजिस्ट्रार

और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं।

वारंट जारी करने के लिए अनुमोदन ईमेल के माध्यम से उक्त नोटिस का प्रेषण 19 जुलाई, 2022 को पूरा हो गया है ।

डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध है www.evoting.nsdl.com जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। कट—ऑफ डेट यानी सोमवार, 18 जुलाई, 2022 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने

रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि

ख) रिमोट ई—वोटिंग बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है। ग) दूरस्थ ई—वोटिंग गुरुवार, 18 अगस्त, 2022 को शाम 05:00 (आईएसटी) बजे समाप्त होती है

 अ) सदस्य ध्यान दे सकते हैं कि (j) दूरस्थ ई—वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएग और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की अनुमति उपरोक्त बिंदु 'सी' के तहत उल्लिखित तारीख और समय के बाद नहीं दी जाएगी; और (ii) एक बार एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान किए जाने के

समय के बाद नहीं दी जाएगी, और (ii) एक बार एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान किए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

अपनी ई—मेल आईडी को पंजीकृत / अपडेट करें: डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी को पंजीकत / अपडेट करें।

त्र) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और / या शिकायत के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक (एनएसडीएल), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। **मुफिन ग्रीन फाइनैंस लिमिटेड** के लिए

17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22 / 2020 दिनांक 15 जून, 2020, प्तामान्य परिपत्र संख्या ३३ / २०२० दिनांक २८ सितंबर, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या ३९ / २०२० दिनांक ३१ दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या

20 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियमन 44, और अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या समय—समय पर उल्लेख किया गया है, के विनियमन सहित, और अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या समय–समय पर उल्लेख किया गया है. एक पोस्टल बैलेट नोटिस, उक्त नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर

डाक मतपत्र और ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और धारा

1. अधिमान्य आधार पर 35,54,502 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुमोदन 2. प्रमोटर श्रेणी से संबंधित इकाई को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयरों में 4,65,000 पूरी तरह से परिवर्तनीय पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर www.apmfinvest.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की

वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और ई—वोटिंग एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज

वाले सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टग् (रिमोट ई—वोटिंग) के माध्यम से पोस्टल बैलट के नोटिस में निर्धारित व्यावसायिक वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनिक

क) डाक मतपत्र की सचना में निर्धारित विशेष व्यवसायों को केवल इलेक्टॉनिक साधनों से मतदान के माध्यम से लेनदेन किया जाना है

घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार

बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी: च) सदस्य ध्यान दे सकते हैं कि (i) दूरस्थ ई—वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएग और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की अनुमति उपरोक्त बिंद 'सी' के तहत उल्लिखित तारीख और

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए और जिनके ई—मेल पते पंजीकत / अद्यतन नहीं किए गए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके या मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को ईमेल admin@skylinerta.com पर

DIPR/C/9481/2022

PWD Div NCRPB Alwar

DIPR/C/9437/2022

PWD Div Kishangarh Bas Alwar